

वस्त्र मंत्रालय

मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2019 का मासिक सारांश

1. नीतिगत निर्णय

- i. वस्त्र मंत्रालय ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुरोध के अनुसार 56000 गांठ तक खाद्यान्नों की पैकिंग में एचडीपीई/पीपी थैलों का उपयोग करने के लिए पटसन पैकिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के प्रावधानों में परिवर्तन किए जाने का अनुमोदन दिनांक 29.04.2019 को प्रदान किया है।
- ii. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल और मेड-अप्स क्षेत्र को सहायता प्रदान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए सभी राज्य और केंद्रीय करो/लेवियों (अथवा ड्रॉ-बैंक समिति द्वारा संस्तुत दरों के अनुसार) पर छूट प्रदान करने के लिए दिनांक 07.03.2019 को एक योजना अनुमोदित की है। आरओएससीटीएल योजना तत्कालीन आरओएसएल योजना के स्थान पर लागू की गई है। आरओएससीटीएल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श करने के लिए डीजीएफटी की अध्यक्षता में दिनांक 12.04.2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:-

- i. हथकरघा क्षेत्र: विदेशी बाजार में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2019 में हांगकांग में एक अंतर्राष्ट्रीय मेला अर्थात इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल्स एंड फर्निशिंग फेयर में 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इस मेले में 5.65 करोड़ रुपए मूल्य का व्यापार हुआ जिसमें 241 विजिटर्स ने भाग लिया था।
- ii. हस्तशिल्प क्षेत्र:
 - क) वित्त वर्ष 2018-19 में कालीन सहित हस्तशिल्प के निर्यात में 14.2% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 36798.25 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया।
 - ख) विशेष रूप से अनुसूचित जाति के कारीगरों के लाभ के लिए दिनांक 30 मार्च से 03 अप्रैल, 2019 तक काठमांडू, नेपाल में इंडिया नेपाल फॉक क्राफ्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
 - ग) 56 सदस्य निर्यातकों के साथ 20-23 अप्रैल, 2019 में हांगकांग हाउस वेयर और होम टेक्सटाइल्स शो, हांगकांग में इंडिया पैवेलियन लगाया गया।

- घ) 38 सदस्य निर्यातकों के साथ 27-30 अप्रैल, 2019 में हांगकांग गिफ्ट एंड प्रीमियम शेर - हांगकांग में इंडिया पैवेलियन लगाया गया।
- ड) इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट, दिल्ली एनसीआर में 16-18 अप्रैल, 2019 को आरबीएसएम- हाउसवेयर, फर्नीचर और टेकस्टाइल्स वाले होम एक्सपो का आयोजन किया गया जिसमें 475 से अधिक प्रदर्शनकारियों, विनिर्माताओं और उद्यमियों ने भाग लिया। इस शो में 523 से अधिक खरीददार आए।
- च) अप्रैल, 2019 के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में 03 शिल्प जागरूकता शिविर और दो शिल्प प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- iii. **कपास:** अप्रैल, 2019 के दौरान बीज कपास की अखिल भारतीय आवक 31.03 लाख गांठ थी। इसमें से बीज कपास की केवल 147 गांठ की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत भारतीय कपास निगम (सीसीआई) द्वारा की गई है क्योंकि सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास का बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक चल रहा है।
- iv. **प्रौद्योगिकी उन्नयन:** अप्रैल, 2019 के दौरान संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ए-टीयूएफएस) के तहत 35.21 करोड़ रु. की परियोजना लागत तथा 3.20 करोड़ रु. की सब्सिडी आवश्यकता के साथ 16 यूआईडी जारी किए गए हैं।
- v. **विद्युतकरघा क्षेत्र:** विद्युतकरघा कामगारों की समूह बीमा योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2019 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 2 विद्युतकरघा कामगारों को नामावली में शामिल किया गया था।